

Signature and Name of Invigilator

1. (Signature) \_\_\_\_\_

(Name) \_\_\_\_\_

2. (Signature) \_\_\_\_\_

(Name) \_\_\_\_\_

**D 0 4 1 5**

Time : 1¼ hours]

**PAPER - II**  
**PSYCHOLOGY**

[Maximum Marks : 100

Number of Pages in this Booklet : 32

Number of Questions in this Booklet : 50

**Instructions for the Candidates**

- Write your roll number in the space provided on the top of this page.
- This paper consists of fifty multiple choice type of questions.
- At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :
  - To have access to the Question Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker seal and do not accept an open booklet.
  - Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the Question Booklet will be replaced nor any extra time will be given.
  - After this verification is over, the Test Booklet Number should be entered on the OMR Sheet and the OMR Sheet Number should be entered on this Test Booklet.
- Each item has four alternative responses marked (1), (2), (3) and (4). You have to darken the circle as indicated below on the correct response against each item.

Example : ① ② ● ④ where (3) is the correct response.
- Your responses to the items are to be indicated in the **OMR Sheet given inside the Booklet only**. If you mark your response at any place other than in the circle in the OMR Sheet, it will not be evaluated.
- Read instructions given inside carefully.
- Rough Work is to be done in the end of this booklet.
- If you write your Name, Roll Number, Phone Number or put any mark on any part of the OMR Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, or use abusive language or employ any other unfair means, such as change of response by scratching or using white fluid, you will render yourself liable to disqualification.
- You have to return the original OMR Sheet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall. You are however, allowed to carry original question booklet and duplicate copy of OMR Sheet on conclusion of examination.
- Use only Blue/Black Ball point pen.
- Use of any calculator or log table etc., is prohibited.
- There are no negative marks for incorrect answers.
- In case of any discrepancy in the English and Hindi versions, English version will be taken as final.

OMR Sheet No. : .....  
(To be filled by the Candidate)

Roll No. 

--	--	--	--	--	--	--	--

(In figures as per admission card)

Roll No. \_\_\_\_\_  
(In words)

**परीक्षार्थियों के लिए निर्देश**

- इस पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए।
- इस प्रश्न पत्र में पचास बहुविकल्पीय प्रश्न हैं।
- परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न पुस्तिका आपको दे दी जायेगी। पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे, जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :
  - प्रश्न पुस्तिका खोलने के लिए पुस्तिका पर लगी कागज की सील को फाड़ लें। खुली हुई या बिना स्टीकर सील की पुस्तिका स्वीकार न करें।
  - कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात् किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें। इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे। उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
  - इस जाँच के बाद प्रश्न पुस्तिका का नंबर OMR पत्रक पर अंकित करें और OMR पत्रक का नंबर इस प्रश्न पुस्तिका पर अंकित कर दें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प (1), (2), (3) तथा (4) दिये गये हैं। आपको सही उत्तर के वृत्त को पेन से भरकर काला करना है जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

उदाहरण : ① ② ● ④ जबकि (3) सही उत्तर है।
- प्रश्नों के उत्तर केवल प्रश्न पुस्तिका के अन्दर दिये गये OMR पत्रक पर ही अंकित करने हैं। यदि आप OMR पत्रक पर दिये गये वृत्त के अलावा किसी अन्य स्थान पर उत्तर चिह्नंकित करते हैं, तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा।
- अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- कच्चा काम (Rough Work) इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर करें।
- यदि आप OMR पत्रक पर नियत स्थान के अलावा अपना नाम, रोल नम्बर, फोन नम्बर या कोई भी ऐसा चिह्न जिससे आपकी पहचान हो सके, अंकित करते हैं अथवा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, या कोई अन्य अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अंकित किये गये उत्तर को मिटाना या सफेद स्याही से बदलना तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित किये जा सकते हैं।
- आपको परीक्षा समाप्त होने पर मूल OMR पत्रक निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और परीक्षा समाप्ति के बाद उसे अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें। हालांकि आप परीक्षा समाप्ति पर मूल प्रश्न पुस्तिका तथा OMR पत्रक की डुप्लीकेट प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं।
- केवल नीले/काले बाल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करें।
- किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है।
- गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं हैं।
- यदि अंग्रेजी या हिंदी विवरण में कोई विरंगता हो, तो अंग्रेजी विवरण अंतिम माना जाएगा।

D-0415



1

P.T.O.

## PSYCHOLOGY

### PAPER - II

**Note :** This paper contains **fifty (50)** objective type questions of **two (2)** marks each. **All** questions are **compulsory**.

1. Motion sickness can occur when :

- (a) one loses his vestibular sense.
- (b) one relies only on visual information.
- (c) one's visual information and vestibular system's information are congruent.
- (d) one's visual system and vestibular system are in conflict.

**Codes :**

- (1) (a) only
- (2) (a) and (b)
- (3) (d) only
- (4) (a) and (d)

2. Read each of the following two statements - **Assertion (A)** and **Reason (R)** and indicate your answer using the codes given below :

**Assertion (A) :** Iconic store is a discrete visual sensory store.

**Reason (R) :** Because information is believed to be stored in the form of visual codes.

**Codes :**

- (1) Both **(A)** and **(R)** are true and **(R)** is the correct explanation of **(A)**.
- (2) Both **(A)** and **(R)** are true, but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**.
- (3) **(A)** is true, but **(R)** is false.
- (4) **(A)** is false, but **(R)** is true.

3. Backward Conditioning occurs when :

- (1) CS and US are presented simultaneously
- (2) CS is presented first and US is presented before the termination of CS
- (3) CS is presented first and US is presented after the termination of CS
- (4) US is presented first and CS is presented after the termination of US



**मनोविज्ञान**  
**प्रश्न-पत्र - II**

**निर्देश :** इस प्रश्न-पत्र में **पचास (50)** बहु-विकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के **दो (2)** अंक हैं। **सभी प्रश्न अनिवार्य** हैं।

1. गति सम्बन्धी रोग उस स्थिति में होता है :

- (a) जब किसी की प्रघाण संवेदना समाप्त हो जाती है।
- (b) जब कोई व्यक्ति केवल दृश्य सूचनाओं पर निर्भर रहता है।
- (c) जब किसी भी दृश्य सूचनाओं और प्रघाण तंत्र की सूचना में तालमेल होता है।
- (d) जब किसी के दृश्य तन्त्र और प्रघाण तंत्र में परस्पर अन्तर्द्वन्द्व होता है।

**कूट :**

- (1) केवल (a)
- (2) (a) और (b)
- (3) केवल (d)
- (4) (a) और (d)

2. निम्नलिखित दो कथनों - **अभिकथन (A)** और **तर्क (R)** को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना उत्तर दीजिए :

**अभिकथन (A) :** प्रतिमापरक भण्डार, विच्छिन्न दृष्टि संवेदी भण्डार है।

**तर्क (R) :** क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूचना दृष्टि कूटों के रूप में भण्डारित होती है।

**कूट :**

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (2) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- (4) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

3. जब पश्चगामी अनुबंधन होता है :

- (1) अनुकूलित उद्दीपक और अनानुकूलित उद्दीपक साथ-साथ प्रस्तुत होते हैं।
- (2) अनुकूलित उद्दीपक पहले मौजूद होता है और अनानुकूलित उद्दीपक अनुकूलित उद्दीपक के परिसमापन के पूर्व प्रस्तुत होता है।
- (3) अनुकूलित उद्दीपक पहले मौजूद होता है और अनानुकूलित उद्दीपक अनुकूलित उद्दीपक के परिसमापन के पश्चात् प्रस्तुत होता है।
- (4) अनानुकूलित उद्दीपक पहले प्रस्तुत होता है और अनानुकूलित उद्दीपक के परिसमापन के पश्चात् अनुकूलित उद्दीपक मौजूद होता है।



4. Which among the following defines problem space ?

- (a) An initial state
- (b) A goal state
- (c) A set of operations

**Codes :**

- (1) (a) and (c)      (2) (a) and (b)      (3) (b) and (c)      (4) (a), (b) and (c)

5. The James-Lange theory and the cognitive theory of emotion disagree on whether :

- (1) specific brain centers are involved in specific emotions.
- (2) bodily feedback determines which emotion is felt.
- (3) individuals can judge their emotions accurately.
- (4) there is no any biological involvement in human emotions.

6. Match **List-I** with **List-II** and select the **correct** answer by choosing from the codes given below :

**List-I**

- (a) Binet
- (b) Broca
- (c) Wechsler
- (d) Galton

**List-II**

- (i) Intelligent people often have intelligent relatives
- (ii) Performance based intelligence tests eliminate cultural bias
- (iii) Correlation between intelligence and brain size
- (iv) Intelligence is a collection of mental abilities

**Codes :**

- |     | (a)   | (b)   | (c)   | (d)  |
|-----|-------|-------|-------|------|
| (1) | (i)   | (ii)  | (iii) | (iv) |
| (2) | (ii)  | (iii) | (iv)  | (i)  |
| (3) | (iii) | (iv)  | (i)   | (ii) |
| (4) | (iv)  | (iii) | (ii)  | (i)  |

7. Biologically based emotional and behavioural tendencies that are evident in early childhood represent :

- (1) Trait                      (2) Type                      (3) Temperament      (4) Style



4. निम्नलिखित में से कौन समस्या क्षेत्र को परिभाषित करते हैं ?

- (a) एक प्राथमिक अवस्था
- (b) एक लक्ष्य अवस्था
- (c) अभियानों का एक समूह

कूट :

- (1) (a) और (c)                      (2) (a) और (b)                      (3) (b) और (c)                      (4) (a), (b) और (c)

5. संवेग के जेम्स-लैंगे व संज्ञानात्मक सिद्धांत निम्न में से किस पर सहमत नहीं हैं ?

- (1) विशिष्ट मस्तिष्क केंद्र विशिष्ट संवेगों में संलग्न होते हैं।
- (2) शारीरिक निविष्टि (फीडबैक) तय करती है कि किस संवेग का अनुभव होता है।
- (3) व्यक्ति अपने संवेगों के संबंध में सही ढंग से निर्णय ले सकते हैं।
- (4) मानवीय संवेगों में कोई जैविक संलिप्तता नहीं होती है।

6. सूची-I और सूची-II को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए :

सूची-I

- (a) बिनेट
- (b) ब्रोका
- (c) वेस्लर
- (d) गाल्टन

सूची-II

- (i) बुद्धिमान लोगों के रिश्तेदार प्रायः बुद्धिमान होते हैं
- (ii) निष्पादन आधारित बुद्धि परीक्षण सांस्कृतिक बायस को समाप्त करती है
- (iii) बुद्धि और मस्तिष्क के आकार के बीच सह-संबंध
- (iv) बुद्धि-मानसिक क्षमताओं का संग्रह है

कूट :

- |     | (a)   | (b)   | (c)   | (d)  |
|-----|-------|-------|-------|------|
| (1) | (i)   | (ii)  | (iii) | (iv) |
| (2) | (ii)  | (iii) | (iv)  | (i)  |
| (3) | (iii) | (iv)  | (i)   | (ii) |
| (4) | (iv)  | (iii) | (ii)  | (i)  |

7. बचपन में पाई जाने वाली जीव विज्ञान आधारित भावनात्मक और व्यवहार संबंधी प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करती हैं :

- (1) शील-गुण                      (2) प्रकार                      (3) स्वभाव/प्रकृति                      (4) शैली



8. In Jungian theory, the idea that energy is automatically redistributed in the psyche in order to achieve equilibrium or balance depicts :
- (1) Principle of Equivalence                      (2) Principle of Synchronicity  
 (3) Principle of Entrophy                        (4) Principle of Opposites
9. After the recent terrorist attacks in France, a psychologist proposed a study wherein he would interview two hundred French citizens to find whether their attitude towards fate as a consequence of the attack. This study can best be labelled as :
- (1) attitude change experiment                (2) field experiment  
 (3) ex post facto study                         (4) psychometric study
10. Match **List-I** with **List-II** and select the **correct** answer by choosing from the codes given below :

<b>List-I</b>	<b>List-II</b>
<b>(Cutaneous receptors)</b>	<b>(Responds to)</b>
(a) Free nerve endings	(i) Sudden displacement of skin
(b) Ruffini endings	(ii) Gradual skin indentation
(c) Merkel's disks	(iii) Gradual skin stretch
(d) Pacinian corpuscles	(iv) Temperature change and pain

**Codes :**

- |     | <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
|-----|------------|------------|------------|------------|
| (1) | (i)        | (ii)       | (iii)      | (iv)       |
| (2) | (ii)       | (iii)      | (iv)       | (i)        |
| (3) | (iii)      | (iv)       | (i)        | (ii)       |
| (4) | (iv)       | (iii)      | (ii)       | (i)        |

11. Read each of the following two statements - **Assertion (A)** and **Reason (R)** and indicate your answer using the codes given below :

**Assertion (A) :** A tree shall appear in same perceived size whether one views it from near or far point.

**Reason (R) :** The size of retinal image remains invariant.

**Codes :**

- (1) Both **(A)** and **(R)** are true and **(R)** is the correct explanation of **(A)**.  
 (2) Both **(A)** and **(R)** are true, but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**.  
 (3) **(A)** is true, but **(R)** is false.  
 (4) **(A)** is false, but **(R)** is true.



8. जुंगियन सिद्धांत में यह विचार कि ऊर्जा का पुनः वितरण मानस में अपने आप हो जाता है ताकि संतुलन बना रहे, निम्नलिखित सिद्धांत को दर्शाता है :

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| (1) तुल्यता का सिद्धांत   | (2) समकालिकता का सिद्धांत |
| (3) तारतम्यता का सिद्धांत | (4) विपरीतता का सिद्धांत  |

9. हाल में फ्रांस में आतंकवादी आक्रमण के बाद एक मनोवैज्ञानिक ने ऐसा अध्ययन करने का प्रस्ताव किया जिसमें वह दो सौ फ्रांसीसी नागरिकों का साक्षात्कार लेकर यह पता लगाएगा कि क्या वे इस आक्रमण का कारण भाग्य को मानते हैं। इस अध्ययन को कहा जाता है।

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| (1) अभिवृत्ति परिवर्तन प्रयोग | (2) क्षेत्र प्रयोग  |
| (3) घटनोत्तर अध्ययन           | (4) मनोमितीय अध्ययन |

10. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए :

**सूची-I**

( त्वचीय संग्रहक )

- (a) मुक्त स्नायु अंतिम छोर
- (b) रूफिनी अंतिम छोर
- (c) मर्कल पट्टिका
- (d) पैसेनियन कणिका

**सूची-II**

( से अनुक्रिया )

- (i) आकस्मिक त्वचा विस्थापन
- (ii) शनैः-शनैः त्वचा दंतुरीकरण
- (iii) शनैः-शनैः त्वचा प्रसार
- (iv) तापक्रम परिवर्तन और पीड़ा

**कूट :**

- |     | (a)   | (b)   | (c)   | (d)  |
|-----|-------|-------|-------|------|
| (1) | (i)   | (ii)  | (iii) | (iv) |
| (2) | (ii)  | (iii) | (iv)  | (i)  |
| (3) | (iii) | (iv)  | (i)   | (ii) |
| (4) | (iv)  | (iii) | (ii)  | (i)  |

11. निम्नलिखित दो कथनों - **अभिकथन (A)** और **तर्क (R)** को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए :

**अभिकथन (A) :** पास या दूर से देखने पर कोई पेड़ उसी प्रत्यक्षात्मक आकार में प्रतीत होगा।

**तर्क (R) :** अक्षिपटलीय आकृति का आकार अपरिवर्तनीय रहता है।

**कूट :**

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (2) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- (4) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।



12. Which of the following is **correct** while comparing classical and operant conditioning ?
- (1) Operant conditioning takes place before reinforcement while classical conditioning takes place after reinforcement.
  - (2) Operant conditioning takes place as a result of some voluntary action while classical conditioning takes place without choice.
  - (3) In operant conditioning, response is elicited while in classical conditioning it is emitted.
  - (4) In operant conditioning magnitude of the response is the index of conditioning while in classical conditioning it is the rate of response.

13. Words learned under water are recalled :

- (1) Better on land than under water
- (2) Better above land (sky) than on land
- (3) Better above land (sky) than under water
- (4) Better under water than on land

14. Read each of the following two statements - **Assertion (A)** and **Reason (R)** and indicate your answer using the codes given below :

**Assertion (A) :** People overlook flaws if the overall issue is perceived as important.

**Reason (R) :** People have some biases.

**Codes :**

- (1) Both **(A)** and **(R)** are true and **(R)** is the correct explanation of **(A)**.
- (2) Both **(A)** and **(R)** are true, but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**.
- (3) **(A)** is true, but **(R)** is false.
- (4) **(A)** is false, but **(R)** is true.





12. श्रेण्य (क्लासिकल) और क्रियाप्रसूत (आपरेन्ट) अनुकूलन की तुलना करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?

- (1) क्रियाप्रसूत अनुकूलन पुनर्बलन से पहले होता है जबकि प्राचीन (क्लासिकल) अनुकूलन पुनर्बलन के बाद होता है।
- (2) क्रियाप्रसूत अनुकूलन कुछ ऐच्छिक क्रिया के फलस्वरूप होता है जबकि प्राचीन अनुकूलन बिना किसी विकल्प के होता है।
- (3) क्रियाप्रसूत अनुकूलन में अनुक्रिया प्राप्त की जाती है जबकि प्राचीन अनुकूलन में उत्सर्जित होती है।
- (4) क्रियाप्रसूत अनुकूलन में अनुक्रिया की गहनता अनुकूलन का सूचक है जबकि प्राचीन अनुकूलन में यह अनुक्रिया संख्या दर होती है।

13. पानी के अंदर याद किए गए शब्दों को पुनःस्मरण किया जाता है :

- (1) पानी के अंदर की तुलना में जमीन पर बेहतर
- (2) जमीन पर की तुलना में जमीन से ऊपर (आकाश) बेहतर
- (3) पानी के अंदर की तुलना में जमीन से ऊपर (आकाश) बेहतर
- (4) जमीन पर की तुलना में पानी के अंदर बेहतर

14. निम्नलिखित दो कथनों - **अभिकथन (A)** और **तर्क (R)** को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए :

**अभिकथन (A) :** यदि समूचे मामले को महत्वपूर्ण समझा जाए तो व्यक्ति उसकी कमियों की ओर ध्यान नहीं देता है।

**तर्क (R) :** व्यक्तियों में कुछ बायसिज (अभिनति) होते हैं।

**कूट :**

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (2) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- (4) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।



15. Simi is totally blind, but she follows a 24-hr day-night cycle like the rest of us, and seems comfortably adapted to it. Studies on animals suggest she relies on :

- (a) a built-in rhythm in her Supra-Chiasmatic Nucleus (SCN).
- (b) non-visual receptors in her eyes.
- (c) social activity
- (d) clocks

**Codes :**

- (1) (b) only            (2) (d) only            (3) (c) and (d)            (4) (a), (c) and (d)

16. Flynn effect is :

- (1) High IQ score of a generation in comparison to succeeding generation.
- (2) High IQ score of a generation in comparison to preceding generation.
- (3) A person's increase in accumulated knowledge with increase in age.
- (4) A person's change in accumulated knowledge with increase in age.

17. Which of the following sequence is **correct** ?

- (1) Oral phase → Anal phase → Latency → Phallic → Genital
- (2) Anal → Oral → Phallic → Latency → Genital
- (3) Oral → Anal → Phallic → Latency → Genital
- (4) Oral → Phallic → Anal → Genital → Latency

18. Which one of the following is considered as a non-parametric alternative to one-way ANOVA for independent samples ?

- (1) Kruskal - Wallis H test            (2) Mann - Whitney U test
- (3) Kolmogorov - Smirnov test            (4) Friedman's ANOVA



15. सिमी को बिलकुल दिखाई नहीं देता, परंतु वह शेष हम लोगों के समान ही 24 घंटे के दिन-रात (दैनिक चक्र) का पालन करती है और ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से इसके अनुकूल हो गई है। पशुओं पर किए अध्ययनों से पता चलता है कि वह निम्नलिखित में से किसी एक पर निर्भर है :

- (a) उसके सुपरा-कियाजमैटिक केन्द्रक (एस.सी.एन) में अन्तर्निहित सामंजस्य
- (b) आँखों में अदृश्यात्मक संग्राहक
- (c) सामाजिक क्रिया
- (d) घड़ियाँ

कूट :

- (1) केवल (b)                      (2) केवल (d)                      (3) (c) और (d)                      (4) (a), (c) और (d)

16. फ्लाइन प्रभाव है :

- (1) किसी पीढ़ी का उसकी अनुवर्ती पीढ़ियों की तुलना में उच्च बुद्धि लब्धि (आई.क्यू.) अंक
- (2) किसी पीढ़ी का उसकी पूर्ववर्ती पीढ़ियों की तुलना में उच्च बुद्धि लब्धि (आई.क्यू.) अंक
- (3) आयु में वृद्धि के साथ-साथ व्यक्ति के संचित ज्ञान में वृद्धि
- (4) आयु में वृद्धि के साथ-साथ व्यक्ति के संचित ज्ञान में परिवर्तन

17. निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम सही है ?

- (1) मुखीय चरण → गुदीय चरण → शिशनीय चरण → लैंगिक चरण → जननीय चरण
- (2) गुदीय → मुखीय → लैंगिक → शिशनीय → जननीय
- (3) मुखीय → गुदीय → लैंगिक → शिशनीय → जननीय
- (4) मुखीय → लैंगिक → गुदीय → जननीय → शिशनीय

18. निम्नलिखित में से किसे एकल पथ प्रसरण विश्लेषण (ए.एन.ओ.वी.ए.) का अप्राचलिक विकल्प माना जाता है ?

- (1) क्रुसकाल - वालिस एच टेस्ट
- (2) मैन ह्विटने यू (U) टेस्ट
- (3) कोल्मोगोरोव - स्मिरनोव टेस्ट
- (4) फ्रिडमैन्स एनोवा



19. Read each of the following two statements - **Assertion (A)** and **Reason (R)** and indicate your answer using the codes given below :

**Assertion (A) :** Action potentials normally travel along axons in one direction.

**Reason (R) :** The portions of an axon over which an action potential has just travelled are left momentarily refractory.

**Codes :**

- (1) Both **(A)** and **(R)** are true and **(R)** is the correct explanation of **(A)**.
- (2) Both **(A)** and **(R)** are true, but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**.
- (3) **(A)** is true, but **(R)** is false.
- (4) **(A)** is false, but **(R)** is true.

20. Match **List-I** with **List-II** and select the **correct** answer by choosing from the codes given below :

**List-I**  
**(Cues)**

- (a) Linear perspective
- (b) Aerial perspective
- (c) Atmospheric perspective
- (d) Retinal disparity

**List-II**  
**(Perception)**

- (i) Our two eyes observe objects from slightly different positions.
- (ii) Parallel lines appears to converge at distance.
- (iii) Objects below the horizon appear near.
- (iv) Farther away objects are less distinctly seen.

**Codes :**

- |     | <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
|-----|------------|------------|------------|------------|
| (1) | (i)        | (ii)       | (iii)      | (iv)       |
| (2) | (ii)       | (iii)      | (iv)       | (i)        |
| (3) | (iii)      | (iv)       | (i)        | (ii)       |
| (4) | (iv)       | (iii)      | (ii)       | (i)        |

21. Read each of the following two statements - **Assertion (A)** and **Reason (R)** and indicate your answer using the codes given below :

**Assertion (A) :** A desirable behaviour of an individual can be effectively used as a reference for another less desirable activity.

**Reason (R) :** Premack has suggested that all responses should be thought of as potential reinforcers.

**Codes :**

- (1) Both **(A)** and **(R)** are true and **(R)** is the correct explanation of **(A)**.
- (2) Both **(A)** and **(R)** are true, but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**.
- (3) **(A)** is true, but **(R)** is false.
- (4) **(A)** is false, but **(R)** is true.



19. निम्नलिखित दो कथनों - **अभिकथन (A)** और **तर्क (R)** को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए :

**अभिकथन (A) :** क्रिया विभव सामान्यतया अक्षतंतु के साथ-साथ एक ही दिशा में प्रसारित होते हैं।

**तर्क (R) :** अक्षतंतु के जिस भाग में कोई क्रिया विभव तुरंत प्रसारित हुआ है, वे कुछ देर के लिए दुर्ज्य हो जाते हैं।

**कूट :**

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (2) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- (4) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

20. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए :

**सूची-I**

(व्यू/संकेत)

- (a) रैखिक परिप्रेक्ष्य
- (b) वायवीय परिप्रेक्ष्य
- (c) वायुमंडलीय परिप्रेक्ष्य
- (d) अक्षिपटलीय विषमता

**सूची-II**

(प्रत्यक्ष)

- (i) हमारी दोनों आँखें कुछ भिन्न स्थिति से वस्तुओं को देखती हैं।
- (ii) समानान्तर रेखाएँ दूरी पर अभिसरित होती प्रतीत होती हैं।
- (iii) क्षितिज से नीचे की वस्तुएँ नजदीक प्रतीत होती हैं।
- (iv) दूर स्थित वस्तुएँ कम स्पष्ट दिखती हैं।

**कूट :**

- |     | (a)   | (b)   | (c)   | (d)  |
|-----|-------|-------|-------|------|
| (1) | (i)   | (ii)  | (iii) | (iv) |
| (2) | (ii)  | (iii) | (iv)  | (i)  |
| (3) | (iii) | (iv)  | (i)   | (ii) |
| (4) | (iv)  | (iii) | (ii)  | (i)  |

21. निम्नलिखित दो कथनों - **अभिकथन (A)** और **तर्क (R)** को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना उत्तर दीजिए :

**अभिकथन (A) :** किसी व्यक्ति के वांछित व्यवहार का प्रभावी उपयोग किसी अन्य कम वांछनीय क्रिया के संदर्भ में किया जा सकता है।

**कारण (R) :** प्रीमेक का सुझाव था कि सभी अनुक्रियाओं को संभाव्य पुनर्बलक के रूप में समझा जाना चाहिए।

**कूट :**

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (2) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- (4) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।



22. Which memory is the result of instrumental/motor learning processes ?

- (1) Semantic memory
- (2) Episodic memory
- (3) Sensory memory
- (4) Procedural memory

23. If you begin with a problem and come up with many different solutions; you are using \_\_\_\_\_, which is a form of creative thinking; contrarily sometimes you come up with correct solution by using \_\_\_\_\_ thinking.

- (1) convergent, inductive
- (2) convergent, deductive
- (3) convergent, divergent
- (4) divergent, convergent

24. Choose the **correct** formula to measure Body Mass Index (BMI).

- (1) Weight in kg squared/height in meters
- (2) Weight in kg squared/Height in meters squared
- (3) Weight in kg/height in meters
- (4) Weight in kg/height in meters squared

25. Which of the following are **not** identified by Thurstone ?

- (a) Induction
- (b) Spatial
- (c) Symbolic
- (d) Semantic

Codes :

- (1) (a) and (b)
- (2) (c) and (d)
- (3) (a) and (c)
- (4) (a), (b) and (c)



22. कौन-सी स्मृति नैमेत्तिक/गतिक अधिगम प्रक्रिया का परिणाम है ?

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| (1) शब्दार्थ स्मृति | (2) घटनाजन्य स्मृति      |
| (3) ऐन्द्रिय स्मृति | (4) प्रक्रियात्मक स्मृति |

23. यदि आप एक समस्या के समाधान का प्रारंभ करते हैं व विभिन्न प्रकार के समाधानों के बारे में सोचते हैं तो प्रकार का सृजनात्मक चिंतन करते हैं। इसके विपरीत जब किसी समस्या का एक सही समाधान ढूँढ़ते हैं तो प्रकार के चिंतन का उपयोग करते हैं :

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| (1) अभिसरण, आगमनिक तर्क | (2) अभिसरण, बहिर्गमनिक तर्क |
| (3) अभिसरण, अपसरण       | (4) अपसरण, अभिसरण           |

24. बॉडी मास इंडेक्स (BMI) को मापने के लिए सही फार्मूले का चयन कीजिए :

- (1) किलोग्राम में भार का वर्ग /मीटर में लंबाई
- (2) किलोग्राम में भार का वर्ग/मीटर में लंबाई का वर्ग
- (3) किलोग्राम में भार/मीटर में लंबाई
- (4) किलोग्राम में भार/मीटर में लंबाई का वर्ग

25. थर्स्टन द्वारा निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया गया ?

- (a) प्रेरण
- (b) स्थानिक
- (c) प्रतीकात्मक
- (d) शब्दार्थ विषयक

कूट :

- |                |                |                |                     |
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| (1) (a) और (b) | (2) (c) और (d) | (3) (a) और (c) | (4) (a), (b) और (c) |
|----------------|----------------|----------------|---------------------|



26. Match the items of **List-I** with the items of **List-II**. Select the **correct** answer from the answer codes given below :

<b>List-I</b>	<b>List-II</b>
<b>(Concept)</b>	<b>(Theorist)</b>
(a) Rational Functions	(i) Freud
(b) Impetus	(ii) Jung
(c) Masculine Protest	(iii) Adler
(d) Hyper competitiveness	(iv) Horney

**Codes :**

	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>
(1)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(2)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)
(3)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)
(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)

27. Match **List-I** with **List-II** and indicate your answer using the codes given below :

<b>List-I</b>	<b>List-II</b>
<b>(Types of variable)</b>	<b>(Examples)</b>
(a) Continuous variable	(i) Examination results in terms of pass and fail
(b) Real discrete variable	(ii) Voice pitch
(c) Artificially discrete variable	(iii) Intelligence
(d) Qualitative variable	(iv) Nationality

**Codes :**

	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>
(1)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(2)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(3)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(4)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)





26. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए :

**सूची-I**

( अवधारणा )

- (a) तर्कसंगत प्रकार्य  
(b) प्रेरक शक्ति  
(c) पुरुषोचित विरोध  
(d) अति-प्रतिस्पर्धा

**सूची-II**

( सिद्धांती )

- (i) फ्रायड  
(ii) जुंग  
(iii) एडलर  
(iv) होर्नी

**कूट :**

- |     | (a)   | (b)   | (c)   | (d)  |
|-----|-------|-------|-------|------|
| (1) | (i)   | (ii)  | (iii) | (iv) |
| (2) | (ii)  | (i)   | (iii) | (iv) |
| (3) | (iii) | (ii)  | (iv)  | (i)  |
| (4) | (iv)  | (iii) | (i)   | (ii) |

27. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए :

**सूची-I**

( चर )

- (a) निरंतर चर  
(b) वास्तविक असतत चर  
(c) कृत्रिम असतत चर  
(d) गुणात्मक चर

**सूची-II**

( उदाहरण )

- (i) उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के रूप में परीक्षा के परिणाम  
(ii) स्वर तीव्रता  
(iii) बुद्धि  
(iv) राष्ट्रीयता

**कूट :**

- |     | (a)   | (b)  | (c)  | (d)   |
|-----|-------|------|------|-------|
| (1) | (iii) | (iv) | (i)  | (ii)  |
| (2) | (iii) | (i)  | (iv) | (ii)  |
| (3) | (ii)  | (iv) | (i)  | (iii) |
| (4) | (ii)  | (i)  | (iv) | (iii) |



28. In which lobe of the cerebral cortex, the primary olfactory cortex lies ?

- (1) Frontal lobe (2) Temporal lobe  
(3) Occipital lobe (4) Parietal lobe

29. "Factor Analysis is used as a means of confirming a structured model than as a means of discovering a structural model". This is true of which theory of intelligence ?

- (1) Spearman (2) Thurstone  
(3) Jensen (4) Guilford

30. Read each of the following two statements - **Assertion (A)** and **Reason (R)** and indicate your answer using the codes given below :

**Assertion (A) :** One focuses on the discovery of truth and interests that are empirical, critical and rational.

**Reason (R) :** A person high on economic values focuses on usefulness and practicality.

**Codes :**

- (1) Both **(A)** and **(R)** are true and **(R)** is the correct explanation of **(A)**.  
(2) Both **(A)** and **(R)** are true, but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**.  
(3) **(A)** is true, but **(R)** is false.  
(4) **(A)** is false, but **(R)** is true.

31. A supervisor, who was asked to rate his subordinates on the basis of his observations, found an employee who did not take a medical leave in that year. On the basis of this observation, the supervisor rated the employee as 'medically fit', 'highly efficient' and 'meticulous'. This is an example of :

- (1) lineancy error (2) constant error  
(3) tendency to give extreme rating (4) halo effect



28. प्रमस्तिष्क वल्कुट के किस पिंडक में प्राथमिक घ्राण वल्कुट निहित होता है ?

- (1) अग्रललाट पालि (2) शंख पालि  
(3) अनुकपाल पालि (4) भित्तीय पालि

29. “कारक विश्लेषण का उपयोग किसी संरचनात्मक प्रतिरूप की खोज के उपाय की तुलना में संरचनात्मक प्रतिरूप की पुष्टि के उपाय के रूप में किया जाता है।” किस बुद्धि सिद्धांत के लिए यह सत्य है ?

- (1) स्पीयरमेन (2) थर्स्टन  
(3) जेनसन (4) गिलफोर्ड

30. निम्नलिखित दो कथनों - **अभिकथन (A)** और **तर्क (R)** को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए :

**अभिकथन (A) :** यदि कोई व्यक्ति ऐसे सत्य और अभिरुचियों की खोज पर बल देता है जो प्रयोगात्मक, आलोचनात्मक और तर्कसंगत होते हैं।

**तर्क (R) :** उच्च आर्थिक मूल्यों का व्यक्ति उपयोगिता और व्यावहारिकता पर बल देता है।

**कूट :**

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।  
(2) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।  
(3) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।  
(4) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

31. एक पर्यवेक्षक, जिसे प्रेक्षणों के आधार पर अपने अधीनस्थों का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था, ने पाया कि एक कर्मचारी ने उस वर्ष के दौरान चिकित्सा अवकाश नहीं लिया था। इस तथ्य के आधार पर पर्यवेक्षक ने उस कर्मचारी का मूल्यांकन ‘चिकित्सीय दृष्टि से फिट’, ‘अत्यंत कार्यकुशल’ और ‘सतर्क’ के रूप में किया। यह उदाहरण है :

- (1) उदारता त्रुटि का (2) स्थिर त्रुटि का  
(3) अत्यधिक मूल्यनिर्धारण की प्रवृत्ति का (4) परिचय प्रभाव का



32. Which of the following parts of the basal ganglia constitute the striatum ?

- (a) Amygdala
- (b) Caudate
- (c) Putamen
- (d) Globus Pallidus

**Codes :**

- (1) (a) and (b)      (2) (a) and (c)      (3) (b) and (c)      (4) (c) and (d)

33. Among the laws of perceptual grouping, the law of simplicity is a tendency to :

- (1) perceive simple patterns in terms of complex shapes
- (2) perceive complex patterns in terms of simpler shapes
- (3) perceive simpler shapes only
- (4) perceive complex shapes only

34. What is the role of positive and negative reinforcement ?

- (1) To increase the likelihood that responses preceding both will be repeated.
- (2) To decrease the likelihood that responses preceding negative reinforcement will be repeated.
- (3) To increase the likelihood that responses preceding only positive reinforcement will be repeated.
- (4) To ensure that there are no negative consequences following the behaviour.

35. Match **List-I** with **List-II** and select the **correct** answer by choosing from the codes given below :

**List-I**

- (a) Sensory memory
- (b) Attention
- (c) Short term memory
- (d) Elaborative rehearsal

**List-II**

- (i) Information that passes through a gate and transferred to short term memory
- (ii) Information subjected to deep processing
- (iii) Temporary storage of sensory information
- (iv) Brief storage of information

**Codes :**

- |     | <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
|-----|------------|------------|------------|------------|
| (1) | (i)        | (ii)       | (iii)      | (iv)       |
| (2) | (iii)      | (i)        | (iv)       | (ii)       |
| (3) | (iii)      | (iv)       | (i)        | (ii)       |
| (4) | (iv)       | (iii)      | (ii)       | (i)        |



32. आधारिक गैंगलिया का निम्नलिखित कौन-सा भाग स्ट्रेटम का निर्माण करता है ?

- (a) अमुगडाला
- (b) कौडेट
- (c) पुटामिन
- (d) ग्लोबस पैलिडस

कूट :

- (1) (a) और (b)            (2) (a) और (c)            (3) (b) और (c)            (4) (c) और (d)

33. प्रत्यक्षात्मक समूहीकरण के नियमों में सरलता का नियम निम्नलिखित प्रवृत्ति है :

- (1) जटिल आकृतियों के रूप में सरल प्रतिमानों का प्रत्यक्षीकरण
- (2) सरल आकृतियों के रूप में जटिल प्रतिमानों का प्रत्यक्षीकरण
- (3) केवल सरल आकृतियों का प्रत्यक्षीकरण
- (4) केवल जटिल आकृतियों का प्रत्यक्षीकरण

34. सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन की क्या भूमिका होती है ?

- (1) इस संभावना में वृद्धि करना कि दोनों की पूर्ववर्ती अनुक्रियाएँ पुनरावर्तित होंगी।
- (2) इस संभावना में कमी लाना कि नकारात्मक पुनर्बलन की पूर्ववर्ती अनुक्रियाएँ पुनरावर्तित होंगी।
- (3) इस संभावना में वृद्धि करना कि केवल धनात्मक पुनर्बलन की पूर्ववर्ती अनुक्रियाएँ पुनरावर्तित होंगी।
- (4) यह सुनिश्चित करना कि व्यवहार के पश्चात कोई नकारात्मक परिणाम नहीं आये।

35. सूची-I और सूची-II को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

सूची-I

- (a) संवेदी स्मृति
- (b) अवधान
- (c) अल्पावधिक स्मृति
- (d) विवरणात्मक पुनराभ्यास

सूची-II

- (i) सूचना किसी द्वार से होकर जाती है और अल्पकालिक स्मृति में परिवर्तित होती है
- (ii) सूचना का गहन संसाधन होता है
- (iii) संवेदी सूचना का अस्थायी भण्डारण
- (iv) सूचना का संक्षिप्त भण्डारण

कूट :

- |     | (a)   | (b)   | (c)   | (d)  |
|-----|-------|-------|-------|------|
| (1) | (i)   | (ii)  | (iii) | (iv) |
| (2) | (iii) | (i)   | (iv)  | (ii) |
| (3) | (iii) | (iv)  | (i)   | (ii) |
| (4) | (iv)  | (iii) | (ii)  | (i)  |



36. While forming a concept one chooses to take one hypothesis and selects many of its features to quickly form the concept at once :

- (1) Successive scanning
- (2) Conservative focusing
- (3) Focus gambling
- (4) Simultaneous scanning

37. Which among the following are the final outcome of curiosity ?

- (a) Drives to explore
- (b) Increases arousal
- (c) Gains information and resources
- (d) Reduction in tension

**Codes :**

- (1) (b) and (c)
- (2) (b), (c) and (d)
- (3) (a) and (d)
- (4) (a), (b) and (c)

38. Read the statement and choose the **correct** answer out of given options :

“If one hand is placed in a container of hot water and other in cold water. Then both hands are placed in a container of lukewarm water.” Most people experience :

- (1) The hand initially placed in hot water feels the lukewarm water as cool whereas hand initially placed in cold water feels it as hot.
- (2) The hand initially placed in hot water feels the lukewarm water as hot whereas hand initially placed in cold water feels it as cold.
- (3) Both the hands will have feeling of equal hotness but more than temperature of lukewarm water.
- (4) Both the hands will have feeling of equal coldness lower than temperature of lukewarm water.

39. An accused is harassed and tortured until he confesses to the crime is an example of :

- (1) Negative reinforcement
- (2) Punishment
- (3) Primary reinforcement
- (4) Secondary reinforcement



36. एक अवधारणा को गढ़ते समय अवधारणा की शीघ्रता से गठन के लिए एक व्यक्ति किसी की परिकल्पना और इसकी बहुत सी विशेषताओं का चयन करता है :

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| (1) अनुक्रमिक क्रमवीक्षण      | (2) संकुचित केन्द्रीकरण |
| (3) घूतक्रीड़ा पर संकेन्द्रित | (4) समकालिक क्रमवीक्षण  |

37. निम्नलिखित में से कौन-से उत्सुकता के अंतिम परिणाम हैं ?

- (a) अन्वेषण का अन्तर्नोद
- (b) उद्दोलन वर्धन
- (c) सूचनाएँ और संसाधन प्राप्त करना
- (d) तनाव में कमी

कूट :

- |                |                     |                |                     |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| (1) (b) और (c) | (2) (b), (c) और (d) | (3) (a) और (d) | (4) (a), (b) और (c) |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|

38. निम्नलिखित कथन को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

“यदि एक हाथ गर्म पानी वाले बर्तन में रखा जाता है और दूसरा हाथ ठंडे पानी वाले बर्तन में रखा जाता है। इसके बाद दोनों हाथ गुनगुना पानी वाले बर्तन में रखा जाता है।” अधिकांश लोगों को इस प्रकार महसूस होगा :

- (1) शुरू में गर्म पानी में रखे गए हाथ को गुनगुना पानी ठंडा महसूस होगा जबकि शुरू में ठंडे पानी में रखे गए हाथ को यह गर्म महसूस होगा।
- (2) शुरू में गर्म पानी में रखे गए हाथ को गुनगुना पानी गर्म महसूस होगा जबकि शुरू में ठंडे पानी में रखे गए हाथ को यह ठंडा महसूस होगा।
- (3) दोनों हाथों को एक ही प्रकार की परंतु गुनगुने पानी से अधिक ऊष्णता महसूस होगी।
- (4) दोनों हाथों को एक ही प्रकार की परंतु गुनगुने पानी के ठंडेपन से अधिक ठंडापन महसूस होगा।

39. किसी दोषी व्यक्ति को उसके द्वारा अपराध कबूल किए जाने तक परेशान और प्रताड़ित करना किसका उदाहरण है ?

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| (1) नकारात्मक पुनर्बलन | (2) दण्ड         |
| (3) प्राथमिक पुनर्बलन  | (4) गौण पुनर्बलन |



40. Which of the following are **not** Mnemonic devices ?

- (a) Categorical clustering
- (b) Pegword system
- (c) Consolidation
- (d) Rehearsal

**Codes :**

- (1) (a) and (b)      (2) (b) and (c)      (3) (a) and (c)      (4) (c) and (d)

41. Read each of the following two statements - **Assertion (A)** and **Reason (R)** and indicate your answer using the codes given below :

**Assertion (A) :** Advertising and media campaigns are based frequently on the availability heuristic.

**Reason (R) :** Consumers recall instances of being satisfied and expect this outcome to recur.

**Codes :**

- (1) Both **(A)** and **(R)** are true and **(R)** is the correct explanation of **(A)**.
- (2) Both **(A)** and **(R)** are true, but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**.
- (3) **(A)** is true, but **(R)** is false.
- (4) **(A)** is false, but **(R)** is true.

42. Match **List-I** with **List-II** and select the **correct** answer by choosing from the codes given below :

**List-I**

**(Measures)**

- (a) EMG
- (b) EEG
- (c) GSR
- (d) Pupilometry

**List-II**

**(Body part)**

- (i) Sweat glands
- (ii) Iris
- (iii) Muscles
- (iv) Cortical neurons

**Codes :**

- |     | <b>(a)</b> | <b>(b)</b> | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
|-----|------------|------------|------------|------------|
| (1) | (i)        | (ii)       | (iii)      | (iv)       |
| (2) | (ii)       | (iii)      | (iv)       | (i)        |
| (3) | (iii)      | (iv)       | (i)        | (ii)       |
| (4) | (iv)       | (iii)      | (ii)       | (i)        |





40. निम्नलिखित में से कौन स्मृति सहायक विधियाँ नहीं हैं ?

- (a) वर्गीकरणात्मक गुच्छन
- (b) पेगवर्ड प्रणाली
- (c) समेकन
- (d) पुनराभ्यास

कूट :

- (1) (a) और (b)            (2) (b) और (c)            (3) (a) और (c)            (4) (c) और (d)

41. निम्नलिखित दो कथनों - **अभिकथन (A)** और **तर्क (R)** को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए :

**अभिकथन (A) :** विज्ञापन और मीडिया अभियान प्रायः उपलब्धता स्वानुभाविकी पर आधारित होते हैं।

**तर्क (R) :** उपभोक्ता संतुष्ट अनुभवों के दृष्टांतों का स्मरण करते हैं और इसके परिणाम के सामने आने की अपेक्षा रखते हैं।

कूट :

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (2) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- (4) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

42. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए :

**सूची-I**

( माप )

- (a) ई.एम.जी.
- (b) ई.ई.जी.
- (c) जी.एस.आर.
- (d) पुतलीमितिका

**सूची-II**

( शरीरांग )

- (i) पसीने की ग्रंथियाँ
- (ii) आइरिश
- (iii) माँस-पेशियाँ
- (iv) वल्कुटीय तंत्रिकाकोश

कूट :

- |     | (a)   | (b)   | (c)   | (d)  |
|-----|-------|-------|-------|------|
| (1) | (i)   | (ii)  | (iii) | (iv) |
| (2) | (ii)  | (iii) | (iv)  | (i)  |
| (3) | (iii) | (iv)  | (i)   | (ii) |
| (4) | (iv)  | (iii) | (ii)  | (i)  |



43. Read each of the following two statements - **Assertion (A)** and **Reason (R)** and indicate your answer using the codes given below :

**Assertion (A) :** Value of  $h^2$  (heritability) derived for a particular population is not the correct estimation for other populations.

**Reason (R) :** Different populations have similar genotypes but they experience different environment.

**Codes :**

- (1) Both **(A)** and **(R)** are true and **(R)** is the correct explanation of **(A)**.
- (2) Both **(A)** and **(R)** are true, but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**.
- (3) **(A)** is true, but **(R)** is false.
- (4) **(A)** is false, but **(R)** is true.

44. What is the **correct** sequence an auditory stimulus takes to reach the primary auditory cortex ?

- (1) Cochlear nuclei - Superior olive - Inferior colliculus - Medial geniculate nucleus
- (2) Cochlear nuclei - Inferior colliculus - Superior olive - Medial geniculate nucleus
- (3) Superior olive - Cochlear nuclei - Inferior colliculus - Medial geniculate nucleus
- (4) Medial geniculate nucleus - Inferior colliculus - Superior olive - Cochlear nucleus

45. Read each of the following two statements - **Assertion (A)** and **Reason (R)** and indicate your answer using the codes given below :

**Assertion (A) :** Non-equivalent control groups are often encountered in quasi-experimental research.

**Reason (R) :** Quasi-experimental designs are highly useful in policy and program evaluation research.

**Codes :**

- (1) Both **(A)** and **(R)** are true and **(R)** is the correct explanation of **(A)**.
- (2) Both **(A)** and **(R)** are true, but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**.
- (3) **(A)** is true, but **(R)** is false.
- (4) **(A)** is false, but **(R)** is true.



43. निम्नलिखित दो कथनों - **अभिकथन (A)** और **तर्क (R)** को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना उत्तर दीजिए :

**अभिकथन (A) :** किसी विशेष समष्टि के लिए अभिप्रात  $h^2$  (आनुवंशिकी) का मान अन्य समष्टियों के लिए सही समापन नहीं है।

**तर्क (R) :** भिन्न-भिन्न समष्टि के समान जिनोटाइप होते हैं परंतु वे भिन्न पर्यावरण का अनुभव करते हैं।

**कूट :**

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (2) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- (4) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

44. प्राथमिक श्रावणिक वल्कुट तक पहुँचने के लिए श्रावणिक उद्दीपन का सही क्रम क्या है ?

- (1) कोचलियर न्यूक्लेइ - सुपीरियर ओलिव - इनफीरियर कोलिकुलस - मेडियल जेनिकुलेट न्यूक्लिअस
- (2) कोचलियर न्यूक्लेइ - इनफीरियर कोलिकुलस - सुपीरियर ओलिव - मेडियल जेनिकुलेट न्यूक्लिअस
- (3) सुपीरियर ओलिव - कोचलियर न्यूक्लेइ - इनफीरियर कोलिकुलस - मेडियल जेनिकुलेट न्यूक्लिअस
- (4) मेडियल जेनिकुलेट न्यूक्लिअस - इनफीरियर कोलिकुलस - सुपीरियर ओलिव - कोचलियर न्यूक्लिअस

45. निम्नलिखित दो कथनों - **अभिकथन (A)** और **तर्क (R)** को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए :

**अभिकथन (A) :** अर्द्ध-प्रायोगिक अनुसंधान में प्रायः अतुल्य-नियन्त्रण समूहों का उपयोग होता है।

**तर्क (R) :** अर्द्ध-प्रायोगिक अभिकल्प, नीति और कार्यक्रम मूल्यांकन अनुसंधान में काफी उपयोगी होते हैं।

**कूट :**

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (2) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- (4) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।



**Instruction for Q.Nos. 46 to 50 :**

*Read the following paragraph and answer the five questions which follow.*

**Paragraph :** A psychometrician wanted to develop a new test of Abstract Thinking. He prepared eighty items, presumably assessing abstract thinking. Each item had five alternative answers, one of them being correct. The psychometrician carried out item analysis by using item-remainder correlations. Item analysis retained sixty items. To examine internal consistency among the items, inter-item correlations were inspected. Then the split-half reliability coefficient, Kuder - Richardson reliability coefficient, and Cronbach's alpha coefficient were obtained for the sixty item test. The analysis yielded the Cronbach's alpha coefficient of 0.90. Since the test was fairly long and the alpha coefficient was also quite high, an attempt was made to develop two short versions of equal length by randomly dividing the test items. The 60 item version was, then, correlated with the already established abstract reasoning test, using  $N = 500$ . The correlation between the new and an established test was 0.24, significant at .01 level.

46. In the above context, which one of the following correlation should be computed to obtain item-remainder correlations ?
- (1) Point biserial correlation                      (2) Phi-coefficient  
(3) Rank difference correlation                      (4) Tetrachoric correlation
47. Which one of the following statement would be **true** in the above context ?
- (1) Kuder - Richardson reliability coefficient would also be .90, but the split-half reliability coefficient may differ from .90.  
(2) Split-half reliability coefficient would also be .90, but the Kuder - Richardson reliability coefficient may differ from .90.  
(3) Both Kuder - Richardson reliability coefficient and split-half reliability coefficient would be .90.  
(4) The correlation between odd and even parts of the test would be .90.



प्रश्न संख्या 46 से 50 के लिए अनुदेश :

निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

**अनुच्छेद :** एक मनोमिक्तिक अमूर्त चिन्तन का नया परीक्षण विकसित करना चाहता है। वह संभवतः अमूर्त चिन्तन का निर्धारण करके अस्सी मद तैयार करता है। प्रत्येक मद के पाँच वैकल्पिक उत्तर हैं जिनमें से एक सही है। मनोमिक्तिक ने मद अधिशेष सहसंबंध का प्रयोग करके मद विश्लेषण किया। मद विश्लेषण में साठ मद प्रतिधारित रखे जाते हैं। मदों के बीच आंतरिक सामंजस्ता की जांच के लिए अंतर-मदीय सहसंबंध का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात् साठ मद परीक्षण के लिए खण्डित अर्द्ध विश्वसनीयता गुणांक, कुडर-रिचर्डसन विश्वसनीयता गुणांक और क्रॉनबेक अल्फा गुणांक प्राप्त किए गए। विश्लेषण से क्रॉनबेक अल्फा गुणांक 0.90 प्राप्त हुआ। चूंकि परीक्षण काफी लम्बा था और अल्फा गुणांक काफी अधिक था इसलिए परीक्षण मदों का यादृच्छिक विभाजन करके समान दैर्ध्य के दो छोटे संस्करण विकसित करने का प्रयास किया। तत्पश्चात् 60 मद संस्करण को,  $N=500$  का उपयोग करते हुए पहले से स्थापित अमूर्त तर्क परीक्षण से सहसंबद्ध किया गया। नए और स्थापित परीक्षण के बीच सहसंबंध 0.24 था, जो .01 स्तर पर सार्थक था।

46. उपर्युक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से किस सहसंबंध की गणना मद अधिशेष सहसंबंध प्राप्ति के लिए की जानी चाहिए ?

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| (1) बिन्दु द्विश्रेणी सहसंबंध | (2) फाई-गुणांक         |
| (3) कोटि विभेद सहसंबंध        | (4) चतुष्कोष्ठ सहसंबंध |

47. उपर्युक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा ?

- (1) कुडर - रिचर्डसन विश्वसनीयता गुणांक भी .90 होगा, किंतु खण्डित-अर्द्ध विश्वसनीयता गुणांक .90 से भिन्न हो सकता है।
- (2) खण्डित अर्द्ध विश्वसनीयता गुणांक भी .90 होगा, किंतु कुडर रिचर्डसन विश्वसनीयता गुणांक .90 से भिन्न हो सकता है।
- (3) कुडर रिचर्डसन विश्वसनीयता गुणांक और खण्डित अर्द्ध-विश्वसनीयता गुणांक .90 होगा।
- (4) परीक्षण के सम और विषम भागों के बीच सहसंबंध .90 होगा।



48. To obtain inter-item correlations, which one of the following correlation coefficient should be used in the above analysis ?

- (1) Biserial correlation                      (2) Point biserial correlation  
(3) Phi-coefficient                            (4) Rank difference correlation

49. What is the expected Cronbach alpha for the short versions, referred to in the paragraph ?

- (1) 0.45                      (2) 0.67                      (3) 0.82                      (4) 0.90

50. Which one of the following conclusion can be drawn from the data provided above ?

The new Abstract Thinking Test has :

- (1) Satisfactory convergent validity    (2) Satisfactory divergent validity  
(3) Satisfactory concurrent validity    (4) Unsatisfactory concurrent validity

- o o o -



48. अन्तर-मद सहसंबंध प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त विश्लेषण में निम्नलिखित में से किस सहसंबंध का उपयोग करना चाहिए ?

- (1) द्विश्रेणी सहसंबंध (2) बिन्दु-द्विश्रेणी सहसंबंध  
(3) फाई गुणांक (4) कोटि विभेद सहसंबंध

49. अनुच्छेद में उल्लिखित लघु संस्करण के लिए प्रत्याशित क्रॉनबेक अल्फा क्या है ?

- (1) 0.45 (2) 0.67 (3) 0.82 (4) 0.90

50. ऊपर दिए गए प्रदत्त से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है ?

नया मूर्त चिंतन परीक्षण में होता है :

- (1) संतोषजनक अभिसरक वैधता (2) संतोषजनक अपसरण वैधता  
(3) संतोषजनक समवर्ती वैधता (4) असंतोषजनक समवर्ती वैधता

- o o o -



Space For Rough Work

